

क्या आप सोते हुए खर्राटे भरते हो

हाँ

नहीं

क्या तुम्हे दिन के समाये थकान, मांडता अथवा निद्रालुता का अनुभव होता है?

हाँ

नहीं

क्या किसी ने तुम्हे निद्रा में तुम्हारा सहवास रुकते हुवे ध्यान से देखा है?

हाँ

नहीं

क्या आप उच्च रक्त चाप से पीड़ित है?

हाँ

नहीं

किर्पया उत्तर "हाँ" की गन्ना को बॉक्स में लिखें

गर्दन का माप > 40 cm / 15.7 inch

उम्र > 50 साल

लिंग = पुरुष स्त्री

बमी (BMI) > 35

लम्बाई(फीट)	4'10"	5'0"	5'2"	5'4"	5'6"	5'8"	5'10"	6'0"	6'2"	6'4"
वज़न(पौंड्स)	167	179	191	204	216	230	250	258	272	287

लम्बाई (cm)	147	152	158	163	168	173	178	183	188	193
वज़न (Kg)	75	81	86	92	97	104	113	116	122	129

अगर आपकी लम्बाई और वज़न एक कोलुमं में हैं, जैसे 4'10 और 167, तो आपका बमी (BMI) 35 से ज्यादा है.